

MP से लाकर CG में खपाते थे नशे का सामान: 9वीं के स्टूडेंट को कूरियर लेने भेजा तब खुला मामला; 10 हजार टेबलेट के साथ 2 दबोचे गए


बिलासपुर



मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र गेंदले की पुलिस अभी तलाश कर रही है।

बिलासपुर में पुलिस ने नशीली दवाओं का जखीरा जब्त किया है। मुख्य सरगना धर्मेन्द्र गेंदले मोहल्ले के नाबालिग लड़कों से तस्करी कराता है। दो नाबालिग जबलपुर से आए कूरियर के जरिए आए नशीली दवाओं को लेकर पहुंचाने जा रहे थे। तभी दबिश देकर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों नाबालिग आरोपियों से लाखों रुपए के 10 हजार नाइट्रोसन टेबलेट को जब्त किया गया है। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है। मामला सिविल लाइन क्षेत्र के जरहाभाठा का है।

CM भूपेश बघेल की चेतावनी व DGP बदलने के बाद बिलासपुर पुलिस सक्रिय हो गई है। लगातार शराब की अवैध बिक्री करने वालों की धरपकड़ की जा रही है। SP दीपक झा ने पुलिस अफसरों व थानेदारों को नशीली दवाइयां बेचने वालों की भी धरपकड़ करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को सिविल लाइन पुलिस को खबर मिली कि जरहाभाठा मिनी बस्ती में रहने वाले दो नाबालिग बाइक में नशीली दवाइयों की सप्लाई करने जा रहे हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने उनकी जानकारी जुटाई और घेराबंदी कर उन्हें चंद्रिका हॉटल के पास पकड़ लिया। उनके पास से कार्टून मिला। उसकी तलाशी लेने पर नशीली दवाइयां मिली। आरोपी लड़कों से अलग-अलग पैकेट्स में रखे 10 हजार नाइट्रोसन टेबलेट जब्त किया गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है।



जब्त नशीली दवाइयां

कूरियर से मंगाया था दवाइया, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अफसरों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग लड़कों ने कूरियर से सामान उठाने की बात बताई है। उन्होंने बताया कि धर्मेन्द्र ने उन्हें जबलपुर से कूरियर से सामान आने व उसे लेकर आने की बात कही थी। जिस पर दोनों बालक बाइक में उसे लेने गए थे। तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके बयान के आधार पर पुलिस कूरियर ऑफिस के कर्मचारियों की जानकारी जुटाकर पूछताछ करेगी। साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि जबलपुर से कूरियर किसने भेजा था।

चोरी का माल खरीदने के आरोप में हुआ था गिरफ्तार

तीन दिन पहले पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेन्द्र गेंदले को चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसी दिन धर्मेन्द्र को छोड़ भी दिया गया था। नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाला धर्मेन्द्र पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वह मध्यप्रदेश के कटनी व जबलपुर से नशीली दवाइयां मंगाकर शहर में खपाता है।

नवमी का छात्र है बालक दूसरा कपड़े दुकान में करता है काम

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि एक नाबालिग 9वीं कक्षा का छात्र है तो दूसरा कपड़े दुकान में काम करता है। मुख्य सरगना जरहाभाठा में रहने वाला धर्मेन्द्र गेंदले है, जो इस तरह से नाबालिग लड़कों में नशीली दवाइयों का लत डालकर उनसे चोरी सहित अन्य अवैध काम करवाता है। नशीली दवाइयां जब्त होने की भनक लगते ही धर्मेन्द्र गेंदले फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/chhattisgarh/bilaspur/news/mall-brought-to-jabalpur-through-courier-used-to-smuggle-minors-and-school-students-the-gangster-absconded-129116403.html>